

Kendriya Vidyalaya CRPF Jhaphan, Muzaffarpur

WINTER BREAK HOLIDAY HOMEWORK-2020-21

SUBJECT: HINDI

FOR CLASS: 7 A &B

- Q1. बलमहाभारत कथा के प्रश्नोत्तर याद करते हुए अभ्यास करें।
- 2 संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें।
- 3 उपसर्ग किसे कहते हैं। 10 उदाहरण बतायें।
4. किन्हीं दो विषयों पर निबंध लिखें।
 - 1 सरस्वती पूजा
 - 2 होली
 - 3 नववर्ष
5. बहन की सदी में शामिल होने के लिये दो दिन की छुट्टी के लिए प्राचार्य को पत्र लिखें।
6. रहीम के दोहे लिखें एवं याद करें।
7. मित्र के जन्मदिन पर उपस्थित न होने के कारण बताते हुए एक पत्र लिखें।
8. 10 उपसर्ग एवं प्रत्ये लिखें।
9. 10 पर्यायवाची शब्द लिखें।

Mrs. Ritu Bala

Kendriya Vidyalaya CRPF Jhaphan, Muzaffarpur

WINTER BREAK HOLIDAY HOMEWORK-2020-21

SUBJECT: SOCIAL SCIENCE

FOR CLASS: 7 A &B

- 1. Write the names of all states of India with their capitals and CM'S**
- 2. Locate the 30 major cities on Indian map .**
- 3. How many world heritage sites are there in India ? Name them**
- 4. Write the names of the thirty countries with their capitals .**
- 5. What are the reasons for global warming ?**

MR. HARI SHANKAR Pd.

Kendriya Vidyalaya CRPF Jhaphan, Muzaffarpur

WINTER BREAK HOLIDAY HOMEWORK-2020-21

SUBJECT: ENGLISH

FOR CLASS: 7 A &B

A. Read the following chapters properly.

The Invention of Vita Wonk

Dad and the Cat and the Tree

I Want Something in a Cage

Chandni

B. Writing task:

1. Write and learn all the questions and answers of the chapters which have been discussed in our classes.
2. Write a letter to your friend thanking him for birthday present he sent for you.
3. You are Krish, a student of Class VII. You have lost an expensive watch in the school premises. Draft a notice to be put up on the school notice board

MR.Sofiul Alam,

TGT (ENGLISH)

Kendriya Vidyalaya CRPF Jhaphan, Muzaffarpur

WINTER BREAK HOLIDAY HOMEWORK-2020-21

SUBJECT: SCIENCE

FOR CLASS: 7 A &B

Write the answer of following questions:

Q 1. Define the following:

- (a) Weather
- (b) Cyclones
- (c) Respiration
- (d) Reproduction

Q 2. Draw the labeled diagram of different part of flower.

Q 3. Describe different modes of reproduction in plant.

Q 4. Draw the labeled diagram of human lungs.

Q 5. A simple pendulum takes 32 s to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum ?

Q 6. The distance between two stations is 240 km. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train.

Q 7. Write difference between (a) aerobic respiration and (b) anaerobic respiration.

Q 8. Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 m/s, calculate the distance between her house and school.

Q 9. Why is transport of materials necessary in a plant or in an animal ? Explain.

Q 10 What is pollination ? Describe different types of pollination.

Mr. Kapil Kumar Singh, TGT (Sc.)

Kendriya Vidyalaya CRPF Jhaphan, Muzaffarpur

WINTER BREAK HOLIDAY HOMEWORK-2020-21

SUBJECT: MATH

FOR CLASS: 7 A & B

KVCRPF JHAPHAN, MUZ.
WINTER BREAK
Homework

Class-7 (A & B)

Sub-Mathematics.

Q1. Draw ΔPQR with $PQ=4$ cm, $QR=3.5$ cm & $PR=4$ cm.
What type of triangle is this?

Q2. Find the value of

(a) $-\frac{7}{12} \div \left(-\frac{2}{13}\right)$ (b) $\frac{3}{13} \div \left(-\frac{4}{65}\right)$

Q3. Represent the rational numbers on the number line.

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $-\frac{7}{4}$ (c) $-\frac{5}{8}$ (d) $\frac{7}{8}$

Q4. Amina buys a book for Rs 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for?

Q5. Find

(a) 50% of 164

(b) 75% of 12.

(c) 15% of 250.


Q6. A tree is broken at a height of 5 m from the ground & its top touches the ground at a distance of 12 m from the base of the tree. Find the original height of the tree.

Q7. Write

(a) Angle sum property of a triangle

(b) Exterior angle property of a triangle.

Q8. Find the values of the angles x , y & z .



Q9. Construct angles of 30° , 45° , 60° , 75° , 90° , 120° with the help of ruler and compasses only.

Q10. Solve

(a) $4 + 4(m+1) = 0$

(b) $2y + \frac{5}{2} = \frac{37}{2}$

Q11. Find the mean, median and mode of the data
13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14.